



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 2013/पौष 18, 1934

No. 95]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2013/PAUSA 18, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2013

का.आ. 99(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 659(अ), तारीख 29 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 40/000 कि.मी. से 85/600 कि.मी. (तिंदिवनम्-कृष्णागिरि सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 19 जून, 2012 को "दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस" और "डेलीथॉथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के विल्लूपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 40.000 कि.मी से 85.600 कि.मी तक (तिदिवनम - कृष्णागिरि सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम
				उप विभाजन से पहले	उप विभाजन से बाद				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	विल्लूपुरम	सेंजी	नेनिलीकोण्डार	7/14	7/14बी	निजी	शुष्क	245	अमुथा अम्माल पत्नी शिवनाथन
				7/15	7/15बी	निजी	शुष्क	40	अमुथा अम्माल पत्नी शिवनाथन
				8/1बी	8/1बी2	निजी	शुष्क	15	1. वरधाप्पा उदयार पुत्र कुप्पाणा उदयार 2. मनीकम पुत्र वरधाप्पा उदयार
				8/2ए	8/2ए2	निजी	शुष्क	660	1. अन्नापोरणी पत्नी राजारामन 2. मनीकम पुत्र वरधाप्पा उदयार
				8/2बी	8/2बी2	निजी	शुष्क	540	कुप्पाणा उदीयार (ए) पोन्नुसामी पुत्र पेरीयाथामबी
				8/2सी	8/2सी	निजी	शुष्क	450	अंजापुली पुत्र कुप्पाणा उदीयार
				8/3	8/3बी	निजी	शुष्क	1020	1. पुनीथा पत्नी नागाराजन 1. रमेश पुत्र दुराईराज
				8/4ए	8/4ए2	निजी	शुष्क	15	अन्नापुर्णी पत्नी राजारामन
				8/6	8/6बी	निजी	शुष्क	689	1. रमेश पुत्र दुराईराज 2. अर्चना पत्नी रमेश
				8/7ए	8/7ए2	निजी	शुष्क	666	1. सुब्रानणी पुत्र पचायाप्पा गाउंडर 2. करुणानिधि पुत्र मानप्पा गाउंडर 3. शंकर पुत्र मानप्पा गाउंडर 4. रमेश पुत्र मानप्पा गाउंडर 5. वी आर मुनुसामी पुत्र रंगासामी 6. अंबालगन पुत्र पचाई गाउंडर 7. रामाचन्द्रन पुत्र बालाकृष्णन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								8. सेलवाराज पुत्र बालाकृष्णन 9. सेलवाराज पुत्र बालाकृष्णन 10 सुब्रामणी पुत्र पेरुमल गाउंडर
				8/7बी	8/7बी2	निजी	शुष्क	721 मुनुसामी गाउंडर पुत्र रंगासामी गाउंडर
				8/8ए	8/8ए2	निजी	शुष्क	189 1. मरुथाचलम पुत्र राधाकृष्णन 2. अरुलमुरुगन पुत्र राधाकृष्णन
				8/8बी	8/8बी2	निजी	शुष्क	266 स्यैद गोस पुत्र स्यैद लतीफ साहिब
				8/9ए	8/9ए2	निजी	शुष्क	323 स्यैद गोस पुत्र स्यैद लतीफ साहिब
				8/9बी	8/9बी2	निजी	शुष्क	226 1. राजेन्द्रन पुत्र नारायण सामी 2. रंजीत (माईनर) पुत्र महाराजन गर्डियन माता धानाम
				8/11	8/11	निजी	शुष्क	300 1. सुब्रामणी पुत्र पचायाप्पा गाउंडर 2. करुणानिधि पुत्र मानप्पा गाउंडर 3. शंकर पुत्र मानप्पा गाउंडर 4. रमेश पुत्र मानप्पा गाउंडर 5. वी आर मुनुसामी पुत्र रंगासामी 6. अंबालगन पुत्र पचाई गाउंडर 7. रामाचन्द्रन पुत्र बालाकृष्णन 8. सेलवाराज पुत्र बालाकृष्णन 9. सेलवाराज पुत्र बालाकृष्णन 10 सुब्रामणी पुत्र पेरुमल गाउंडर
				8/12	8/12	निजी	शुष्क	350 शिवमनी पुत्र मेरी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
				14/2ए1	14/2ए1बी	निजी	शुष्क	910	अम्माणी अम्माल पत्नी सामीनाथ मुदलियार
				14/2ए2	14/2ए2बी	निजी	शुष्क	125	1. सेलवाराज पुत्र समबात उदयार 2. शिवकुमार पुत्र समबात उदयार
				14/2बी	14/2बी2	निजी	शुष्क	1055	1. सेलवाराज पुत्र समबात उदयार 2. शिवकुमार पुत्र समबात उदयार
				14/3	14/3बी	निजी	शुष्क	1800	1. मनोहरन पुत्र अजहागेशन 2. सुमथी पत्नी मनोहरन
				14/4ए	14/4ए2	निजी	शुष्क	1318	1. सेलवाराज पुत्र समबात उदयार 2. शिवकुमार पुत्र समबात उदयार
				14/4बी	14/4बी2	निजी	शुष्क	829	1. सेलवाराज पुत्र समबात उदयार 2. शिवकुमार पुत्र समबात उदयार
				14/4सी	14/4सी	निजी	शुष्क	550	अन्नामलाई पुत्र चिन्नु गाउंडर
				14/4डी	14/4डी	निजी	शुष्क	500	अन्नामलाई पुत्र चिन्नु गाउंडर
				15/1सी	15/1सी2	निजी	शुष्क	74	अनबालगन पुत्र पचाई गाउंडर
				15/1डी	15/1डी2	निजी	शुष्क	868	1. सुब्रामणी पुत्र पचायाप्पा गाउंडर 2. करुणानिधि पुत्र मान्नाप्पा गाउंडर 3. शंकर पुत्र मान्नाप्पा गाउंडर 4. रमेश पुत्र मान्नाप्पा गाउंडर 5. वी आर मुनुसामी पुत्र रंगासामी 6. अंबालगन पुत्र पचाई गाउंडर 7. रामाचन्द्रन पुत्र बालाकृष्णन 8. सेलवाराज पुत्र बालाकृष्णन

1	2	3	4	5		6	7	8	9
									9. सेलवारज पुत्र बालाकृष्णन 10 सुब्रामणी पुत्र पेरुमल गाउंडर
				34/4ए1	34/4ए1ए	निजी	शुष्क	690	1. शंकर पुत्र पेरीयाथामबी उदयार 2. ईलुमलाई पुत्र पेरीयाथामबी उदयार 3. राजेन्द्रन पुत्र वरधा मुदलीयार
				34/4ए2	34/4ए2ए	निजी	शुष्क	116	1. शंकर पुत्र पेरीयाथामबी उदयार 2. ईलुमलाई पुत्र पेरीयाथामबी उदयार 3. राजेन्द्रन पुत्र वरधा मुदलीयार
				34/5	34/5ए	निजी	शुष्क	208	1. शंकर पुत्र पेरीयाथामबी उदयार 2. ईलुमलाई पुत्र पेरीयाथामबी उदयार 3. राजेन्द्रन पुत्र वरधा मुदलीयार
				34/6	34/6ए	निजी	शुष्क	266	1. समबात उदयार पुत्र धर्माशिव उदयार 2. इन्दिरा पत्नी समबत 3. शंकर पुत्र पेरीयाथामबी गाउंडर 4. ईलुमलाई पुत्र पेरीयाथामबी 5. राजेन्द्रन पुत्र वरधान
				34/7ए	34/7ए1	निजी	शुष्क	142	1. शंकर पुत्र पेरीयाथामबी उदयार 2. ईलुमलाई पुत्र पेरीयाथामबी उदयार
				34/7बी	34/7बी1	निजी	शुष्क	120	1. शंकर पुत्र पेरीयाथामबी उदयार 2. ईलुमलाई पुत्र पेरीयाथामबी उदयार
				34/8ए	34/8ए1	निजी	शुष्क	200	धनबाल पुत्र कान्नु गाउंडर
				34/8बी	34/8बी1	निजी	शुष्क	132	गणपति गाउंडर पुत्र गोबिन्दाराजु गाउंडर
				34/9	34/9ए	निजी	शुष्क	335	1. ईलुमलाई नाईकर पुत्र मुनुसामी नाईकर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2. गोवरी पत्नी मनीकम नाईकर 3. गजालक्ष्मी पत्नी मोगानासुन्दरम 4. तिलक पुत्र मनीका नाईकर
				38/1ए1ए	38/12	निजी	शुष्क	362 ईलुमलाई पुत्र वेल्लाई गाउंडर
				38/1ए1बी	38/13	निजी	शुष्क	127 1. अंबालगन पुत्र चक्रवती मुदलियार 2. नान्था कुमार पुत्र कन्थासामी उदयार
				38/1ए2	38/1ए2ए	निजी	शुष्क	697 1. राजेन्द्रन पुत्र नारायण सामी 2. रंजित (माईनर) पुत्र महाराजन गर्डियन माता धानाम 2. नान्था कुमार पुत्र कन्थासामी उदयार
				38/1बी	38/1बी1	निजी	शुष्क	1056 1. अंबालगन पुत्र चक्रवती मुदलियार 2. नान्था कुमार पुत्र कन्थासामी उदयार
				38/1सी	38/1सी1	निजी	शुष्क	197 कंचाणा पत्नी राजेन्द्रन
				38/2	38/2ए	निजी	शुष्क	803 सेलवी पत्नी गनावेल
				38/3	38/3ए	निजी	शुष्क	708 1. सुमती पत्नी मनोहरन 2. शन्ति पत्नी चन्द्रशेखरन 3. मुथुसामी पुत्र मनीका उदयार 4. मनोहरन पुत्र अलागेशन
				38/4ए	38/4ए1	निजी	शुष्क	239 1. मुथुसामी पुत्र मनीका उदयार 2. शन्ति पत्नी चन्द्रशेखरन 3. सुमती पत्नी अलागेशन
				38/4बी	38/4बी1	निजी	शुष्क	397 1. मुथुसामी उदयार पुत्र मनक्का उदयार 2. रामन उदयार पुत्र मनीक्का उदयार 3. शन्ति पत्नी चन्द्रशेखरन
				38/5ए2	38/5ए2	निजी	शुष्क	238 1. कासीनाथन पुत्र मुनुसामी गाउंडर 2. मुनीसवरन पुत्र मुनुसामी गाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				38/5ए3ए	38/5ए3ए	निजी	शुष्क	340	1. कासीनाथन पुत्र पचपमुथु उदयार 2. सबारबी पत्नी मोहमेद काजा
				38/5ए3बी	38/14	निजी	शुष्क	332	सबारबी पत्नी मोहमेद काजा
				38/5बी	38/5बी1	निजी	शुष्क	95	कासीनाथन पुत्र पचपमुथु उदयार
				38/5सी	38/5सी1	निजी	शुष्क	266	1. सुब्रामणी पुत्र पचायाप्पा गाउंडर 2. करुणानिधि पुत्र मानप्पा गाउंडर 3. शंकर पुत्र मानप्पा गाउंडर 4. रमेश पुत्र मानप्पा गाउंडर 5. वी आर मुनुसामी पुत्र रंगासामी 6. अंबालगन पुत्र पचाई गाउंडर 7. रामाचन्द्रन पुत्र बालाकृष्णन 8. सेलवाराज पुत्र बालाकृष्णन 9. सेलवाराज पुत्र बालाकृष्णन 10 सुब्रामणी पुत्र पेरुमल गाउंडर
				38/8बी	38/8बी1	निजी	शुष्क	292	कस्तुरी पत्नी राधाकृष्णन
				38/9	38/9ए	निजी	शुष्क	423	कस्तुरी पत्नी राधाकृष्णन
				38/10	38/10ए	निजी	शुष्क	585	1. कस्तुरी पत्नी राधाकृष्णन 2. पोनगावानाम पुत्र कृष्णन गिरामनी
				38/11	38/11ए	निजी	शुष्क	391	1. कस्तुरी पत्नी राधाकृष्णन 2. पोनगावानाम पुत्र कृष्णन गिरामनी 3. नीला पत्नी सरदार सिंह

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th January, 2013

S.O. 99(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 659 (E) dated 29th March 2012, published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.66, in the stretch of land from Km.40/000 to Km.85/600 (Tindivanam - Krishnagiri Section) in district Viluppuram in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "**The New Indian Express**" and "**Dailythanthi**" both dated the 19th June 2012 under Sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the lands with or without structure falling within the stretch from Km. 40/000 to Km. 85/600 (Tindivanam - Krishnagiri section) on the National Highway No.66 in Viluppuram District in the State of Tamil Nadu.

Serial Number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey Number		Type of land	Nature of land	Area (in Square Metres)	Name of the person interested
				Before sub division	After sub division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Viluppuram	(1) Gingee	Nangilikondan	7/14	7/14B	Private	Dry	245	Amutha Ammal w/o Sivanathan
				7/15	7/15B	Private	Dry	40	Amutha Ammal w/o Sivanathan
				8/1B	8/1B2	Private	Dry	15	1. Varadhappa Udayar S/o Kuppanna Udayar 2. Manickam s/o Varadhappa Udayar
				8/2A	8/2A2	Private	Dry	660	1. Annapoorani w/o Rajaraman 2. Manickam s/o Varadhappa Udayar
				8/2B	8/2B2	Private	Dry	540	Kuppanna Udayar(a) Ponnusamy s/o Periyathambi
				8/2C	8/2C	Private	Dry	450	Anjapuli s/o Kuppanna Udayar
				8/3	8/3B	Private	Dry	1020	1. Punitha w/o Nagarajan 2. Ramesh s/o Durairaj
				8/4A	8/4A2	Private	Dry	15	Annapoorani w/o Rajaraman
				8/6	8/6B	Private	Dry	689	1. Ramesh s/o Durairaj 2. Archana w/o Ramesh
				8/7A	8/7A2	Private	Dry	666	1. Subramani s/o Pachayappa Gounder. 2. Karunanithi s/o Mannappa Gounder. 3. Sankar s/o Mannappa Gounder. 4. Ramesh s/o Mannappa Gounder. 5. V.R. Munusamy s/o Rangasamy. 6. Anbalagan s/o Pachai Gounder. 7. Ramachandiran s/o Balakrishnan. 8. Selvaraj s/o Balakrishnan. 9. Kannappan s/o Balakrishnan. 10. Subramani s/o Perumal Gounder.
				8/7B	8/7B2	Private	Dry	721	Munusamy Gounder s/o Rangasamy Gounder
				8/8A	8/8A2	Private	Dry	189	1. Maruthachalam s/o Radhakrishnan. 2. Arulmurugan s/o RadhaKrishnan.
				8/8B	8/8B2	Private	Dry	266	Syed Gouse s/o Syed latheef Sahib

134 GI/13-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8/9A	8/9A2	Private	Dry	323 Syed Gouse s/o Syed Latheef Sahib
				8/9B	8/9B2	Private	Dry	226 1. Rajendhiran s/o Narayana Samy 2. Ranjith (minor) s/o Maharajan, Gardian mother Dhanam
				8/11	8/11	Private	Dry	300 1. Subramani s/o Pachayappa Gounder. 2. Karunanithi s/o Mannappa Gounder. 3. Sankar s/o Mannappa Gounder. 4. Ramesh s/o Mannappa Gounder. 5. V.R. Munusamy s/o Rangasamy. 6. Anbalagan s/o Pachai Gounder. 7. Ramachandiran s/o Balakrishnan. 8. Selvaraj s/o Balakrishnan. 9. Kannappan s/o Balakrishnan. 10. Subramani s/o Perumal Gounder.
				8/12	8/12	Private	Dry	350 Sivamani s/o Mari
				14/2A1	14/2A1B	Private	Dry	910 Ammani ammal w/o Saminatha mudaliyar.
				14/2A2	14/2A2B	Private	Dry	125 1. Selvaraj s/o Sambath udayar. 2. Sivakumar s/o Sambath udayar.
				14/2B	14/2B2	Private	Dry	1055 1. Selvaraj s/o Sambath udayar. 2. Sivakumar s/o Sambath udayar.
				14/3	14/3B	Private	Dry	1800 1. Manoharan s/o Azhagesan. 2. Sumathi w/o Manoharan
				14/4A	14/4A2	Private	Dry	1318 1. Selvaraj s/o Sambath Udayar. 2. Sivakumar s/o Sambath Udayar.
				14/4B	14/4B2	Private	Dry	829 1. Manoharan s/o Azhagesan. 2. Sumathi w/o Manoharan
				14/4C	14/4C	Private	Dry	550 Annamalai s/o Chinnu Gounder.
				14/4D	14/4D	Private	Dry	500 Annamalai s/o Chinnu Gounder.
				15/1C	15/1C2	Private	Dry	74 Anabalagan s/o Pachai Gounder.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				15/1D	15/1D2	Private	Dry	868	1. Subramani s/o Pachayappa Gounder. 2. Karunanithi s/o Mannappa Gounder 3. Sankar s/o Mannappa Gounder 4. Ramesh s/o Mannappa Gounder 5. V.R. Munusamy s/o Rangasamy 6. Anbalagan s/o Pachai Gounder 7. Ramachandiran s/o Balakrishnan 8. Selvaraj s/o Balakrishnan 9. Kannappan s/o Balakrishnan 10. Subramani s/o Perumal Gounder
				34/4A1	34/4A1A	Private	Dry	690	1. Shankar s/o Periyathambi udayar. 2. Elumalai s/o Periyathambi udayar. 3. Rajendiran s/o Varatha mudaliyar.
				34/4A2	34/4A2A	Private	Dry	116	1. Shankar s/o Periyathambi udayar. 2. Elumalai s/o Periyathambi udayar. 3. Rajendiran s/o Varathan
				34/5	34/5A	Private	Dry	208	1. Shankar s/o Periyathambi udayar. 2. Elumalai s/o Periyathambi udayar. 3. Rajendiran s/o Varathan
				34/6	34/6A	Private	Dry	266	1. Sambath Udayar s/o Dharmasiva Udayar. 2. Indira w/o Sambath 3. Shankar S/o Periyathambi 4. Elumalai S/o Periyathambi 5. Rajendran S/o Varathan
				34/7A	34/7A1	Private	Dry	142	1. Shankar s/o Periyathambi Udayar. 2. Elumalai s/o Periyathambi Udayar.
				34/7B	34/7B1	Private	Dry	120	1. Shankar s/o Periyathambi Udayar. 2. Elumalai s/o Periyathambi Udayar.

134 GI/13-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				34/8A	34/8A1	Private	Dry	200 Dhanabal s/o KannuGounder
				34/8B	34/8B1	Private	Dry	132 Ganapathi Gounder s/o Govindarasu Gounder.
				34/9	34/9A	Private	Dry	335 1. Elumalai Naikar s/o Munusamy Naikar 2. Gowri w/o Manicka Naikar 3. Gajalakshmi w/o Moganasundaram 4. Thilak s/o Manicka Naikar
				38/1A1A	38/12	Private	Dry	362 Elumalai s/o Vellai Gounder.
				38/1A1B	38/13	Private	Dry	127 1. Anbalagan s/o Chakkaravarthy Mudaliyar. 2. Nantha Kumar s/o Kanthasamy Udayar.
				38/1A2	38/1A2A	Private	Dry	697 1. Rajendhiran s/o Narayana Samy 2. Ranjith (minor) s/o Maharajan, Gardian mother Dhanam 3. Nanthakumar S/o Kandasamy
				38/1B	38/1B1	Private	Dry	1056 1. Anbalagan s/o Chakkaravarthy Mudaliyar. 2. Nantha Kumar s/o Kanthasamy Udayar.
				38/1C	38/1C1	Private	Dry	197 Kanchana w/o Rajendiran
				38/2	38/2A	Private	Dry	803 Selvi w/o Gnanavel
				38/3	38/3A	Private	Dry	708 1. Sumathi w/o Manoharan 2. Shanthi w/o Chandirasekaran 3. Muthusamy s/o Manika Udayar 4. Manoharan S/o Alagesan
				38/4A	38/4A1	Private	Dry	239 1. Muthusamy s/o Manika Udayar 2. Shanthi w/o Chandirasekaran 3. Sumathi W/o Alagesan
				38/4B	38/4B1	Private	Dry	397 1. Muthusamy Udayar s/o Manikka Udayar 2. Raman Udayar s/o Manikka Udayar 3. Shanthi w/o Chandirasekaran.
				38/5A2	38/5A2	Private	Dry	238 1. Kasinathan s/o Munusamy Gounder 2. Muneeswaran s/o Munusamy Gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				38/5A3A	38/5A3A	Private	Dry	340 1. Kasinathan s/o Pachamuthu Udayar. 2. Sabarabi w/o Mohamad Kaja
				38/5A3B	38/14	Private	Dry	332 Sabarabi w/o Mohamed Kaja
				38/5B	38/5B1	Private	Dry	95 Kasinathan s/o Pachamuthu Udayar.
				38/5C	38/5C1	Private	Dry	266 1. Subramani s/o Pachayappa Gounder. 2. Karunanithi s/o Mannappa Gounder. 3. Sankar s/o Mannappa Gounder. 4. Ramesh s/o Mannappa Gounder. 5. V.R. Munusamy s/o Rangasamy. 6. Anbalagan s/o Pachai Gounder. 7. Ramachandiran s/o Balakrishnan. 8. Selvaraj s/o Balakrishnan. 9. Kannappan s/o Balakrishnan. 10. Subramani s/o Perumal Gounder.
				38/8B	38/8B1	Private	Dry	292 Kasthuri w/o Radhakrishnan
				38/9	38/9A	Private	Dry	423 Kasthuri w/o Radhakrishnan
				38/10	38/10A	Private	Dry	585 1. Kasthuri w/o Radhakrishnan 2. Poongavanam s/o Krishna Giramani
				38/11	38/11A	Private	Dry	391 1. Kasthuri w/o Radhakrishnan 2. Poongavanam s/o Krishna Giramani 3. Neela w/o Sardhar Singh.

[F. No. NHAI/HQ/11013/2011-LA/Notif./PIU-Viluppuram]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.